

Col

Chapter 1

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος
पौलोस प्रेरित खरिस्तोस-के येशु-के के-दवर इच्छ थेलीमतोस थेओउ, काई तिमोथेओस
[G3972](#) [G0652](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1223](#) [G2307](#) [G2316](#) [G2532](#) [G5095](#)
ὁ ἀδελφός,
-हो भै
[G3588](#) [G0080](#)

पौलुस जो परमेश्वर की इच्छानुसार यीशु मसीह का प्रेरित है उसकी, तथा हमारे भाई तिमथियुस की ओर से।

2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἀγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ: χάρις ὑμῖν
-को मेइन कोलोससै पवित्रोन और विशवसि भैयोन-को मेइन खरिस्तोस: अनुग्रह तुमहेइन
[G3588](#) [G1722](#) [G2857](#) [G0040](#) [G2532](#) [G4103](#) [G0080](#) [G1722](#) [G5547](#) [G5485](#) [G4771](#)
καὶ εἰρήνη, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν.
और शन्ति से परमेश्वर पित हमरे
[G2532](#) [G1515](#) [G0575](#) [G2316](#) [G3962](#) [G1473](#)

मसीह में स्थित कुलुस्से में रहने वाले विश्वासी भाइयों और सन्तों के नाम: हमारे परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले।

3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε
हुम-धन्यवाद-देते-हैन -को परमेश्वर पित -के प्रभु हमरे येशु खरिस्तोस सद
[G2168](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3962](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3842](#)
περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,
के-लिये तुमहरे प्ररथन-करते-हुए
[G4012](#) [G4771](#) [G4336](#)

जब हम तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं, सदा ही अपने प्रभु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।

4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην ἣν
सुनकर -को विशवस तुमहर मेइन खरिस्तोस येशु और -को प्रेम जो
[G0191](#) [G3588](#) [G4102](#) [G4771](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3739](#)
ἔχετε εἰς πάντα τοὺς ἁγίους,
तुम-रखते-हो मेइन सब -को पवित्रोन
[G2192](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#) [G0040](#)

क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास तथा सभी संत जनों के प्रति तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना है।

5 διὰ τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς; ἣν
के-दवर -को अश -को रखि-हुइ तुमहरे-लिये मेइन -मेइन स्वरगोन जो
[G1223](#) [G3588](#) [G1680](#) [G3588](#) [G0606](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3739](#)
προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας, τοῦ εὐαγγελίου,
तुम-ने-पहले-सुन मेइन -के वचन -के सत्य -के सुस्मचर
[G4257](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G0225](#) [G3588](#) [G2098](#)

यह उस आशा के कारण हुआ है जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में सुरक्षित है और जिस के विषय में तुम पहले ही सच्चे संदेश अर्थात् सुसमाचार के द्वारा सुन चुके हो।

- 6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, ἐστὶν
 -के उपस्थित मेइन तुमहरे-पस जैस भि मेइन सब -मेइन सनसर है
[G3588](#) [G3918](#) [G1519](#) [G4771](#) [G2531](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2889](#) [G1510](#)
- καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ' ἧς ἡμέρας
 फल-देत-हुअ और बधत-हुअ जैस भि मेइन तुम-मेइन से जिस दिन
[G2592](#) [G2532](#) [G0837](#) [G2531](#) [G2532](#) [G1722](#) [G4771](#) [G0575](#) [G3739](#) [G2250](#)
- ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ;
 तुम-ने-सुन और तुम-ने-जन -को अनुग्रह -क परमेशवर मेइन सत्य
[G0191](#) [G2532](#) [G1921](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1722](#) [G0225](#)

सुसमाचार समूचे संसार में सफलता पा रहा है। यह वैसे ही सफल हो रहा है जैसे तुम्हारे बीच यह उस समय से ही सफल होने लगा था जब तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना था और सचमुच उसे समझा था।

- 7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ, τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν
 जैस तुम-ने-सिख से एपफरस -के प्रिये सह-दस हमरे जो है
[G2531](#) [G3129](#) [G0575](#) [G1889](#) [G3588](#) [G0027](#) [G4889](#) [G1473](#) [G3739](#) [G1510](#)
- πιστοῦς ὑπὲρ ὑμῶν, διάκονος τοῦ Χριστοῦ,
 विश्वस्योग्य के-लिये तुमहरे सेवक -क खरिस्तोस
[G4103](#) [G5228](#) [G4771](#) [G1249](#) [G3588](#) [G5547](#)

हमारे प्रिय साथी दास इपफ्रास से, जो हमारे लिये मसीह का विश्वासी सेवक है, तुमने सुसमाचार की शिक्षा पायी थी।

- 8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν Πνεύματι.
 -ने भि प्रकत-किय हमेइन -को तुमहर प्रेम मेइन अतम
[G3588](#) [G2532](#) [G1213](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4771](#) [G0026](#) [G1722](#) [G4151](#)

आत्मा के द्वारा उतेजित तुम्हारे प्रेम के विषय में उसने भी हमें बताया है।

- 9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ
 इस-लिये इस भि हम से जिस दिन हम-ने-सुन नहिन हुम-रुक्ते-हैन के-लिये
[G1223](#) [G3778](#) [G2532](#) [G1473](#) [G0575](#) [G3739](#) [G2250](#) [G0191](#) [G3756](#) [G3973](#) [G5228](#)
- ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπιγνώσιν τοῦ
 तुमहरे प्ररथन-करते-हुए और मअनगने कि तुम-पुरन-हो-जओ -को ग्यअन -के
[G4771](#) [G4336](#) [G2532](#) [G0154](#) [G2443](#) [G4137](#) [G3588](#) [G1922](#) [G3588](#)
- θελήματος αὐτοῦ, ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,
 इच्छ उसकि मेइन सब बुदधि और समझ अतमिक
[G2307](#) [G0846](#) [G1722](#) [G3956](#) [G4678](#) [G2532](#) [G4907](#) [G4152](#)

इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, हमने भी तुम्हारे लिये प्रार्थना करना और यह विनती करना नहीं छोड़ा है: प्रभु का ज्ञान सब प्रकार की समझ-बूझ जो आत्मा देता, तुम्हें प्राप्त हो। और तुम बुद्धि भी प्राप्त करो,

- 10 περιπατήσαι ἀξίως τοῦ Κυρίου, εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ
 चलने योग्य -के प्रभु मेइन सब प्रसन्त मेइन सब कअम
[G4043](#) [G0516](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1519](#) [G3956](#) [G0699](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2041](#)
- ἀγαθῶ καρποφοροῦντες, καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ;
 अछे फल-लअते-हुए और बधते-हुए -मेइन ग्यअन -के परमेशवर
[G0018](#) [G2592](#) [G2532](#) [G0837](#) [G3588](#) [G1922](#) [G3588](#) [G2316](#)

ताकि वैसे जी सको, जैसे प्रभु को साजे। हर प्रकार से तुम प्रभु को सदा प्रसन्न करो। तुम्हारे सब सत्कर्म सतत सफलता पावें, तुम्हारे जीवन से सत्कर्मों के फल लगे तुम प्रभु परमेश्वर के ज्ञान में निरन्तर बढ़ते रहो।

11 ἐν πάσῃ δυνάμει, δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ,
 मेइन सब शक्ति बलवान-किये-जते-हुए के-अनुसर -कि प्रतप -के महिम उस्कि
[G1722](#) [G3956](#) [G1411](#) [G1412](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2904](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#)

εἰς παῖσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς;
 मेइन सब धैर्य और सहनशैलत के-सथ अनन्द
[G1519](#) [G3956](#) [G5281](#) [G2532](#) [G3115](#) [G3326](#) [G5479](#)

| वह तुम्हें अपनी महिमापूर्ण शक्ति से सुदृढ़ बनाता जाये ताकि विपत्ति के काल खुशी से महाधैर्य से तुम सब सह लो।

12 εὐχαριστοῦντες τῷ Πατρὶ, τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ
 धन्यवाद-देते-हुए -को पित -ने योग्य-बनय तुमहेइन मेइन -के भअग -के
[G2168](#) [G3588](#) [G3962](#) [G3588](#) [G2427](#) [G4771](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3310](#) [G3588](#)

κλήρου τῶν ἁγίων, ἐν τῷ φωτί,
 विरसत -के पवित्रोन मेइन -मेइन जयोति
[G2819](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5457](#)

| उस परम पिता का धन्यवाद करो, जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, तुम उत्तराधिकार पाने में सहभागी बन सके।

13 ὅς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκοτούς, καὶ μετέστησεν
 जिस-ने छुदय हमेइन से -के अधिकअर -के अनधकअर और स्थअनन्तरित-किय
[G3739](#) [G4506](#) [G1473](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1849](#) [G3588](#) [G4655](#) [G2532](#) [G3179](#)

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ:
 मेइन -के रजय -के पुत्र -के प्रेम उस्के
[G1519](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0026](#) [G0846](#)

| परमेश्वर ने अन्धकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया।

14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν;
 मेइन जिस-मेइन हम-रखते-हैन -को छुटकर -को कशम -के पअपोन
[G1722](#) [G3739](#) [G2192](#) [G3588](#) [G0629](#) [G3588](#) [G0859](#) [G3588](#) [G0266](#)

| उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा।

15 ὅς ἐστὶν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως;
 जो है प्रतिम -के परमेशवर -के अद्रिश्य पहलौत सब सिशति
[G3739](#) [G1510](#) [G1504](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G0517](#) [G4416](#) [G3956](#) [G2937](#)

| वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। वह सारी सृष्टि का सिरमौर है।

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ἐπὶ τῆς
 क्यानकि मेइन उस-मेइन रचित-हुअअ -हो सब मेइन -मेइन स्वरगोन और पर -के
[G3754](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2936](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#)

γῆς; τὰ ὀρατὰ, καὶ τὰ ἀόρατα; εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε
 प्रिथवि -हो द्रिश्य और -हो अद्रिश्य चहे सिनहअसन चहे प्रभुत्वोन चहे
[G1093](#) [G3588](#) [G3707](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0517](#) [G1535](#) [G2362](#) [G1535](#) [G2963](#) [G1535](#)

ἀρχαί, εἴτε ἐξουσία: τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται.
 शअसकोन चहे अधिकअरियोन -हो सब के-दवर उस्के और के-लिये उस्के रचित-हुअ
[G0746](#) [G1535](#) [G1849](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1223](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1519](#) [G0846](#) [G2936](#)

| क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है, उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो और चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है।

17 καὶ αὐτός ἐστὶν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.
 और वहि है से-पहले सब और -हो सब मेइन उस-मेइन स्थिर-है
[G2532](#) [G0846](#) [G1510](#) [G4253](#) [G3956](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1722](#) [G0846](#) [G4921](#)

सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, उसी की शक्ति से सब वस्तुएँ बनी रहती हैं।

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας; ὅς ἐστιν
और वहि है -हो सिर -क शरैर -के कलिसिअ जो है
[G2532](#) [G0846](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2776](#) [G3588](#) [G4983](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3739](#) [G1510](#)

(ἡ) ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν παῶσιν αὐτὸς,
-हो अरमभ पेहलौत से -मेइन-से म्रितोन कि हो-जये मेइन सब-मेइन वहि
[G3588](#) [G0746](#) [G4416](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2443](#) [G1096](#) [G1722](#) [G3956](#) [G0846](#)

πρωτεύων;
पेहल
[G4409](#)

इस देह, अर्थात् कलीसिया का सिर वही है। वही आदि है और मरे हुआं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिले।

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι,
क्योनकि मेइन उस-मेइन प्रसन्न-हुअ सब -हो पुरन्त रहने
[G3754](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2106](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4138](#) [G2730](#)

क्योंकि अपनी समग्रता के साथ परमेश्वर ने उसी में वास करना चाहा।

20 καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ
और के-दवर उसके मिल-लेने -को सब के-लिये उसके शन्ति-करके के-दवर
[G2532](#) [G1223](#) [G0846](#) [G0604](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1519](#) [G0846](#) [G1517](#) [G1223](#)

τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ -- δι' αὐτοῦ -- εἶτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,
-के लहोओ -के क्रूस उसके के-दवर उसके चहे -को पर -के प्रिथवि
[G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G4716](#) [G0846](#) [G1223](#) [G0846](#) [G1535](#) [G3588](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#)

εἶτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
चहे -को मेइन -मेइन स्वरगोन
[G1535](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#)

उसी के द्वारा समूचे ब्रह्माण्ड को परमेश्वर ने अपने से पुनः संयुक्त करना चाहा उन सभी को जो धरती के हैं और स्वर्ग के हैं। उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था।

21 καὶ ὑμᾶς, ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῆς διανοίᾳ, ἐν
और तुमहेइन कभि होते-हुए अलग-किये-हुए और शत्रुओन -मेइन समझ मेइन
[G2532](#) [G4771](#) [G4218](#) [G1510](#) [G0526](#) [G2532](#) [G2190](#) [G3588](#) [G1271](#) [G1722](#)

τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,
-मेइन कअरयोन -मेइन बुरे
[G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G4190](#)

एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिये अनजाने और उसके विरोधी थे।

22 νυνὶ δὲ, ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, διὰ τοῦ
अब पर उस-ने-मिल-लिय मेइन -के शरैर -के मअनस उसके के-दवर -के
[G3570](#) [G1161](#) [G0604](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4983](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#)

θανάτου, παραστήσαι ὑμᾶς ἁγίους, καὶ ἀμώμους, καὶ ἀνεγκλήτους, κατενώπιον
म्रित्यु प्रस्तुत-करने तुमहेइन पवित्र और निरदोश और निरदोश सअमने
[G2288](#) [G3936](#) [G4771](#) [G0040](#) [G2532](#) [G0299](#) [G2532](#) [G0410](#) [G2714](#)

αὐτοῦ;
उसके
[G0846](#)

किन्तु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से ले लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निश्कलंक और निर्दोष बना कर प्रस्तुत किया जाये।

23 εἰ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει, θεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ
यदि तोह तुम-बने-रहो -मेइन विश्वास नेएनव-दअले-हुए और स्थिर और न
[G1487](#) [G1065](#) [G1961](#) [G3588](#) [G4102](#) [G2311](#) [G2532](#) [G1476](#) [G2532](#) [G3361](#)

μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ
हने-हुए से -के अश -के सुस्मचर जो तुम-ने-सुन -के
[G3334](#) [G0575](#) [G3588](#) [G1680](#) [G3588](#) [G2098](#) [G3739](#) [G0191](#) [G3588](#)

κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ
प्रचअरित मेइन सब क्षिशति -मेइन के-नेएचे -के स्वरग जिस्क मैन-बन-गय मैन
[G2784](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2937](#) [G3588](#) [G5259](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3739](#) [G1096](#) [G1473](#)

Παῦλος διάκονος.
पौलोस सेवक
[G3972](#) [G1249](#)

यह तभी हो सकता है जब तुम अपने विश्वास में स्थिरता के साथ अटल बने रहो और सुसमाचार के द्वारा दी गयी उस आशा का परित्याग न करो, जिसे तुमने सुना है। इस आकाश के नीचे हर किसी प्राणी को उसका उपदेश दिया गया है, और मैं पौलुस उसी का सेवक बना हूँ।

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ
अब मैं-आनन्द-करत-होओन मेइन -मेइन दुख के-लिये तुमहरे और मैं-पोओर-करत-होओन
[G3568](#) [G5463](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3804](#) [G5228](#) [G4771](#) [G2532](#) [G0466](#)

τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ σαρκί μου, ὑπὲρ τοῦ
-को कमि -के क्लेशोन -के खरिस्तोस मेइन -मेइन मअनस मेरे के-लिये -के
[G3588](#) [G5303](#) [G3588](#) [G2347](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4561](#) [G1473](#) [G5228](#) [G3588](#)

σώματος αὐτοῦ, ὃ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία;
शरेएर उसके जो है -हो कलिसिअ
[G4983](#) [G0846](#) [G3739](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1577](#)

अब देखो, मैं तुम्हारे लिये जो कष्ट उठाता हूँ, उनमें आनन्द का अनुभव करता हूँ और मसीह की देह, अर्थात् कलीसिया के लिये मसीह की यातनाओं में जो कुछ कमी रह गयी थी, उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ।

25 ἦς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν
जिस्के मैन-बन-गय मैन सेवक के-अनुसअर -को प्रबनध -के परमेशवर -को
[G3739](#) [G1096](#) [G1473](#) [G1249](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3622](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ,
दिय-गय मुझे के-लिये तुमहरे पोओर-करने -को वचन -क परमेशवर
[G1325](#) [G1473](#) [G1519](#) [G4771](#) [G4137](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#)

परमेश्वर ने तुम्हारे लाभ के लिये मुझे जो आदेश दिया था, उसी के अनुसार मैं उसका एक सेवक ठहराया गया हूँ। ताकि मैं परमेश्वर के समाचार का पूरी तरह प्रचार करूँ।

26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν
-को रहस्य -को छिप-हुअ से -मेइन-से युगोन और से -मेइन-से
[G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G0613](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0165](#) [G2532](#) [G0575](#) [G3588](#)

γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ;
पेएधियोन अब पर प्रकत-हुअ -को पवित्रोन उसके
[G1074](#) [G3568](#) [G1161](#) [G5319](#) [G3588](#) [G0040](#) [G0846](#)

यह संदेश रहस्यपूर्ण सत्य है। जो आदिकाल से सभी की आँखों से ओझल था। किन्तु अब इसे परमेश्वर के द्वारा संत जनों पर प्रकट कर दिया गया है।

27	οἷς जिनको G3739	ἠθέλησεν चाह G2309	ὁ -ने G3588	Θεὸς परमेशवर G2316	γνωρίσαι जतन G1107	τί क्य G5101	τὸ -हो G3588	πλοῦτος धनवन्त G4149	τῆς -के G3588	δόξης महिम G1391	τοῦ -के G3588
	μυστηρίου रहस्य G3466	τούτου, इस G3778	ἐν मेइन G1722	τοῖς -मेइन G3588	ἔθνεσιν, जतियोन G1484	ὃ जो G3739	ἐστίν है G1510	Χριστὸς खरिस्तोस G5547	ἐν मेइन G1722	ὕμῖν, तुम-मेइन G4771	ἢ -हो G3588
	ἐλπίς अश G1680	τῆς -के G3588	δόξης; महिम G1391								

परमेश्वर अपने संत जनों को यह प्रकट कर देना चाहता था कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितना वैभवपूर्ण है। उसके पास यह रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिये है। और वह रहस्यपूर्ण सत्य यह है कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिये वही हमारी एक मात्र आशा है।

28	ὃν जिसे G3739	ἡμεῖς हम G1473	καταγγέλλομεν, घोशित-करते-हैन G2605	νουθετοῦντες चेतअवनि-देते-हुए G3560	πάντα हर G3956	ἄνθρωπον, मनुश्य G0444	καὶ और G2532	διδάσκοντες सिखते-हुए G1321	
	πάντα हर G3956	ἄνθρωπον, मनुश्य G0444	ἐν मेइन G1722	πάσῃ सब G3956	σοφίᾳ, बुदधि G4678	ἵνα कि G2443	παραστήσωμεν हम-प्रस्तुत-करेन G3936	πάντα हर G3956	ἄνθρωπον मनुश्य G0444
	τέλειον पुरन G5046	ἐν मेइन G1722	Χριστῷ. खरिस्तोस G5547						

हमें जो ज्ञान प्राप्त है उस समूचे का उपयोग करते हुए हम हर किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि हम उसे मसीह में एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सकें। व्यक्ति को उसी की सीख देते हैं तथा अपनी समस्त बुद्धि से हर व्यक्ति को उसी की शिक्षा देते हैं ताकि हर व्यक्ति को मसीह में परिपूर्ण बना कर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सकें।

29	εἰς के-लिये G1519	ὃ जिस G3739	καὶ भि G2532	κοπιῶ, मैन-परिश्रम-करत-होओन G2872	ἀγωνιζόμενος सनघरश-करत-हुअ G0075	κατὰ के-अनुसअर G2596	τὴν -के G3588	ἐνέργειαν शक्ति G1753	αὐτοῦ, उस्कि G0846
	τὴν -को G3588	ἐνεργουμένην कअरय-करति-हुइ G1754	ἐν मेइन G1722	ἐμοί, मुझ-मेइन G1473	ἐν मेइन G1722	δυνάμει. शक्ति G1411			

मैं इसी प्रयोजन से मसीह का उस शक्ति से जो मुझमें शक्तिपूर्वक कार्यरत है, संघर्ष करते हुए कठोर परिश्रम कर रहा हूँ।